

## North Eastern Carrying Moving You Ahead Corporation Limited.

August 16, 2022

Corporate Relations **BSE Limited** Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-4000 01 (Security Code: 534615)

The Manager (Listing Department) National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051 (Symbol: NECCLTD)

Subject:

Publication of Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2022.

Dear Sir(s)

Pursuant to Regulation 47(1)(b) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the newspaper publication of the un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2022 in the following newspapers: Financial Express (English) & Jansatta (Hindi), both dated August 13, 2022.

You are requested to kindly take the same on your records. -

Thanking You

For North Eastern Carrying Corporation Limited For North Eastern Carrying Corporation Ltd.

Company Secretary

(Mamta Bisht) Company Secretary & Compliance Officer

Encl: a/a

FINANCIAL EXPRESS

# NORTHERN RAILWAY

NOTICE FOR E-AUCTION

Senior Divisional Commercial Manager/Freight, Delhi Division, Northern Railway, in terms of Railway Board letter no. 2022/TC(FM)/10/04 dated 13.06.2022, invites bids through e-Auction (www.ireps.gov.in) for leasing of parcel space of SLR compartments in following trains originating from Delhi division for a period of two years as per schedule given below:-12506 (F1), 13258 (F1), 14018 (F1), 15128 (F1) - 11.10.2022 at 11:30 am.

12265 (F1, F2 & R1), 12562 (F1), 14014 (F1)-12.10.2022 at 11:30 am. 12428 (F1), 13414 (F1), 22418 (F2 & R1)-13.10.2022 at 11:30 am. Important notes:

learning centre.html. (e-Auction leasing section.) 2. Earnest Money Deposit (EMD): 5% of the total contractual bid value to be deposited online during the auction. EMD of the successful bidder will be retained as

For more information, requirement and various aspects regarding these e-Auctions.

interested bidders are advised to visit https:// www.ireps.gov.in/html/helpdesk/

. Railway Administration reserves the full and absolute rights to short terminate these contracts at any point of time and /or for taking any decision regarding the discontinuation / continuation of these contracts with modified/additional terms and conditions depending upon the continuation/discontinuation of these trains or commencement of new train services. 2080/2022

#### SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE The Federal Bank Ltd.

Khasra No. 463, Near Tikli Bus Stand, Tikli, Gurgaon-122101

Date: 13.08.2022

Your Perfect Banking Partner Regd. Office. Alwaye, Kerala

(The Federal Bank Ltd.)

### NOTICE FOR PRIVATE SALE OF GOLD

Notice is hereby given for the information of all concerned that Gold Ornaments pledged in the following Gold loan accounts, with the under mentioned branches of the Bank, which are overdue for redemption and which have not been regularised so far in spite of repeated notices, will be put for sale in the branch on or after 29/08/2022 as shown below:

Branch / Venue: K	hasra No. 463, Near	r Tikli Bus Stand, Tikl	, Gurgaon 122101
Name	A/c. No.	Name	A/c. No.
Jyoti	22336400006328	Dharmender Yadav	22336400004356
Parmod Vashist	22336400004968	Dharmender Yadav	22336400005098
Parmod Vashist	22336400004976	Mohit	22336400006005
Parmod Vashist	22336400004984	Pawan Yadav	22336400006278
Sunita	22336400006211	Kaushal	22336400006013
Abhimanu Yadav	22336400003481	Leela	22336400005106
Sharmila	22336400005502	BREST COLUMN	
Sharmila	22336400006336	Bhupender	22336400005007
Sharmila	22336400006393	Bhupender	22336400007037
Dharmender Yadav	22336400001931	Jeet Ram	22336400004588
Place: TIKLI, GUR	GAON	1.450.00	Branch Manager,

#### **JAGSONPAL FINANCE & LEASING LTD.** CIN: L65929DL1991PLC043182 Regd. Office: D-28, First Floor, Greater Kailash Enclave - I, New Delhi - 110 048.

Tel: 011-49025758, Fax: 011-41633812, Web: www.jagsonpal.co.in, Email: jagsonpalfnance@gmail.com **Extract of the Standalone Statement of Unaudited Financial Results** for Quarter ended 30.06.2022

PARTICULARS	Unaudited Quarter ended 30.06.2022	Audited Quarter ended 31.03.2022	Unaudited Quarter ended 30.06.2021
Total income from operation (net)	0.95	5.40	10.59
Net Profit/(Loss) for the period before tax and exception items	(4.31)	(4.92)	5.42
Net Profit/(Loss) for the period after tax (before exception items)	(4.31)	(4.92)	5.42
Net Profit / (Loss) for the period after tax, exceptional items	(4.31)	(4.92)	5.42
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(4.31)	(4.92)	5.42
Equity Share Capital	550.04	550.04	550.04
Reserves excluding revaluation reserves ( i.e Other Equity)	-	-	-
Earning Per Share (face value ₹10/- each) — Basic & Diluted	(0.08)	(0.09)	0.09
<b>Note:</b> 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Resu	Its filed with	the Stock Exc	hanges under

Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulation 2015. The Full format of the Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter ended on 30.06.2022 are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on the company's website www.jagsonpal.co.in. By Order of the Board

Kanwarpal Singh Kochhai Chairman & Managing Directo Place : New Delhi DIN: 00529230 Date: 12.08.2022 FORM A

#### PUBLIC ANNOUNCEMENT [Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India

(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

#### FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF IT POWER CONSULTING PRIVATE LIMITED DELEVANT DADTICHI ADS

1.	Name of Corporate Debtor	IT Power Consulting Private Limited
2	Date of incorporation of Corporate Debtor	16/01/1997
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies -Delhi
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of Corporate Debtor	U31101DL1997PTC348169
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	H. No. C-50, Basement Shivalik, South Delhi, New Delhi – 110017
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	10.08.2022
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	06.02.2023 (Being 180 days from commencement of CIRP
8.	Name and Registration number of the insolvency professional acting as Interim Resolution Professional	Vijay Kumar Sharma Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P02595/2021-2022/1396
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	C-333, St. No. 14, Bhajanpura, Delhi - 110053 Email ID; cavijaysharma@gmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	C-333, St. No. 14, Bhajanpura, Delhi - 110053 Email ID: cavijaysharma@gmail.com
11.	Last date for submission of claims	24.08.2022
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the Interim Resolution Professional	Not applicable as per the information available with the IRP
13.	Names of insolvency professionals identified to act as authorised representative of creditors in a class (three names for each class)	Not Applicable
14.	(a) Relevant forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	a) Relevant Forms available https://ibbi.gov.in/home/downloads b) NA

Limited on 10.08.2022.

The creditors of IT Power Consulting Private Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 24.08.2022 to the interim resolution professional at the address mentioned against

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit their claims with proof in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Vijay Kumar Sharma

Interim Resolution Professional for IT Power Consulting Private Limited Date: 11.08.2022 Regn. No.: IBBI/IPA-001/IP-P02595/2021-2022/13960 Place: New Delhi

#### LIMITED. CINEVISTA

Regd. Office: Plot No.1, Gandhi Nagar, L. B. S. Marg, Kanjurmarg West, Mumbai-400078. CIN: L92130MH1997PLC107871

EXTRACT OF THE STANDALONE & CONSOLIDATED AUDITED RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 30TH JUNE, 2022 (Rs. in Lacs)

Sr. No.	Particulars	01-04-22 30-06-22 Audited Standalone	01-04-21 30-06-21 Audited Standalone	01-01-22 31-03-22 Audited Standalone	01-04-21 31-03-22 Audited Standalone	01-04-22 30-05-22 Audited Consolidated	01-04-21 30-06-21 Audited Consolidated	01-01-22 31-03-22 Audited Consolidated	01-04-21 31-03-22 Audited Consolidated
1	Total Income from Operations	18.35		102.87	144.19	18.35	0.4	102.87	144.19
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(161.43)	(195.01)	(163.13)	(788.11)	(161.45)	(195.02)	(163.14)	(788.16)
3	Net Profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	(161.43)	(195.01)	(819.09)	(1,481.63)	(161.45)	(195.02)	(819.11)	(1,481.68)
4	Net Profit/(loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(161.43)	(195.01)	(984.53)	(1,648.84)	(161.45)	(195.02)	(984.54)	(1,648.89)
5	Total Comprehensive income for the year {Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)}					0			
6	Equity Share Capital (Face Value of Rs. 2/- per share)	1,148.73	1,148.73	1,148.73	1,148.73	1148.73	1,148.73	1,148.73	1,148.73
7	Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- per share)		2		- 62	29.54	29.54	29.54	29.54
7	Reserves (exclusing Revaluation Reserve)	1,528.41	3,583.35	1,689.84	1,689,84	1037.87	3,092.86	1,199.32	1,199.32
8	Earnings per Share of Rs.2/- each (for continuing and discontinued operations)	belokeren.	-8018033310	01/30-778/107		3 - 1265 400			50 /54 mod -50 m
10	Basic:     Diluted.			7.0				- :	

(a)The above is extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other disclosure requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange website www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company website www.cinevistaas.com For CINEVISTA LIMITED

sd/-PREMKRISHEN MALHOTRA Place: Mumbai CHAIRMAN Date: 12.08.2022



# **BCC FUBA INDIA LIMITED**

Regd. Office: 4 K.M., Swarghat Road, Nalagarh-174101, Distt. Solan (H.P.) Tel: 9218423157, Website: www.bccfuba.com, CIN: L51395HP1985PLC012209

Extract of UN-Audited Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2022 (Rs. In lakhs)

					Trees in tenents
S. No.	Particulars	Quarter Ended 30.06.2022 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2021 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2022 (Audited)	Year Ended 31.03.2022 (Audited)
1	Total Income from Operations	473.26	574.12	850.59	2,853.53
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	13.80	25.88	8.32	54.26
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	13.80	25.88	8.32	59.01
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	13.80	25.88	8.32	59.01
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	13.80	25.88	7.14	55.17
6	Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- each)	1,531.01	1,531.01	1,531.01	1,531.01
7	Reserves (Excluding Revalution Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	i d		***	-
8	Earning per share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)- Basic (In Rs.) Diluted (In Rs.)	0.09 0.09	0.17 0.17	0.05 0.05	0.36 0.36

The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the 01st Quarter ended 30th June, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the 01st Quarter ended Financial Results is available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and Company's website (www.bccfuba.com).

There are no extra ordinary items during the Quarter ended June, 2022.

The figures of the previous year/quarter have been regrouped/rearranged wherever necessary to correspond with the current year By the order of the Board For BCC FUBA INDIA LTD.

Place: New Delhi Date : August 12, 2022

# NORTH EASTERN CARRYING CORPORATION LIMITED

(CIN: L51909DL1984PLC019485) Regd. Office: 9062/47, Ram Bagh Road, Azad Market, Delhi- 110006 Tel. No.: 011-23517516-19, Email Id-cs@neccgroup.com, Website- www.neccgroup.com

Statement of un-audited Financial Results for the Quarter ended 30.06.2022 (Rs.in Lakhs)

S. No.	Particulars	3 months ended (30/06/2022)	Previous Year ended (31/03/2022)	Corresponding 3 months ended in the previous year (30/06/2021)
	MILES CONTROL OF THE CONTROL OF THE MANAGEMENT OF THE AMERICAN	(un-audited)	(audited)	(un-audited)
1	Total Income from Operations	8209.30	25042.77	7041.33
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	151.68	568.64	95.90
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	151.68	568.64	95.90
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	96.02	425.75	71.90
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	95.24	421.57	71.90
6	Equity Share Capital (face value Rs 10/- per share)	5019.73	5019.73	5019.73
7	Reserve excluding Revaluation Reserve as per Balance Sheet of previous year		4873.88	
8	Earnings Per Share (of Rs 10/-each) (for continuing and discontinued operations)		5 US	AV
	a) Basic	0.19	0.85	0.14
	V 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	22/10/2020		2.072.000

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of un-audited Financial Results filed with the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

0.19

exchanges i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com. The figures of the March 22 quarter are balancing figures between the audited figures in respect of full financial year and unaudited figures published year to date upto the third guarter of the relevant financial year which were subject to limited review.

2. The Results are available on the website of the Company at www.neccgroup.com and website of Stock

4. The above un-audited financial results for the guarter ended June 30, 2022 were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at their Meeting held on August 12, 2022.

The figures of previous financial year were regrouped/rearranged where ever necessary.

For North Eastern Carrying Corporation Limited

0.85

0.14

(Rs. in Lakhs)

(Sunil Kumar Jain) Chairman & Managing Director DIN: 00010695



Place: Delhi

Date: 12.08.2022

b) Diluted

### WILLIAMSON MAGOR & CO. LIMITED Corporate Identity Number(CIN): CIN - L01132WB1949PLC017715

Registered Office: 4, Mangoe Lane, Kolkata - 700001; Telephone: 033-2210-1221, 2243-5391, 2248-9434, 2248-9435 Fax: 91-33-2248-3683/8114/6265; E-mail: administrator@mcleodrussel.com, Website: www.wmtea.com

**EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS** FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2022

		Standalone			Consolidated				
SI.	Particulars	Quarter ended			Year ended	Quarter ended			Year ended
No.	Particulars	30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	31.03.2022	30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	31.03.2022
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total Income from Operations	1,193.15	825.43	556.71	2,597.16	1,193.15	825.43	556.71	2,597.16
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	856.26	(2,500.71)	504.49	(957.36)	855.76	(2,500.98)	504.41	(958.56)
3.	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	856.26	(2,500.71)	504.49	(957.36)	855.76	(2,500.98)	504.41	(958.56)
4.	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	768.44	(703.71)	(479.16)	(1,449.79)	767.94	(703.99)	(479.24)	(1,450.99)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(351.29)	(367.62)	(184.56)	(1,008.06)	(351.79)	(367.91)	(184.64)	(1,009.25)
6.	Paid-up Equity Share Capital: Face value: Rs 10/- per share	1,095.64	1,095.64	1,095.64	1,095.64	1,095.64	1,095.64	1,095.64	1,095.64
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)				(16,364.34)				(16,899.92)
8.	Earnings per Equity Share (EPS) (Rs.) (not annualised) - Basic and Diluted	7.01	(6.42)	(4.37)	(13.23)	7.01	(6.43)	(4.37)	(13.23)

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Standalone and Consolidated Financial Result filed with the Stock Exchanges under Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Yearly Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchanges' website(www.bseindia.com),(www.nseindia.com) and (www.cse-india.com) and also on the Company's website (www.wmtea.com).
- The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 11th August 2022.

For Williamson Magor & Co. Limited DEBASISH LAHIRI Director DIN: 09451354



Branch Office: Kaithal eCB, KARNAL

Date and Amount of

**Demand Notice** 

Date of Taking

Possession

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY) [RULE 8(1)] Whereas, the undersigned being the authorized officer of the Union Bank of India under the Securitization

and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Second) Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued/published notices upon the borrowers to repay the amount mentioned in the notices within 60 days from the date of receipt of the said notices. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers/Mortgagors/Guarantor

in particular and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rule on the dates mentioned against accounts. The borrowers/Mortgagors/Guarantorin particulars and the public in general is hereby cautioned not

to deal with the properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of the Union Bank Of India for an amount mentioned herein below besides interest and other charges/expenses against accounts. Description of Property

taken in

Possession

04.04.2022	04.08.2022
orteen Thousa Seven and Pais	pees Fifty Sever nd Six Hundred e Forty Five Only est as per the
	tuai rate. Vards Situate

Mandi Township, Jind Road, Inside municipal Limits of Kaithal, Dist. Kaithal owned by Smt. Neelam Mittal W/O Mohan Lal Bounded as - North: House of other, South: Road, East: House no. 194 Satpal, West: House No. 196 of Parlahd Rai

Authorised Officer (UNION BANK OF INDIA) Date: 09.08.2022 Place: Kaithal

CAMBRIDGE TECHNOLOGY ENTERPRISES LIMITED TECHNOLOGY

Name of Account

Regd. Office: Cabin No. 1,4 & 5, Level 1 (Ground Floor) Block 1, "Cyber Pearl", Hitec City, Madhapur, Hyderabad - 500081, TS, India. **Phone**: +91-040-40234400 **Fax**: +91-040-40234600 E-mail: investors@ctepl.com Website: www.ctepl.com CIN: L72200TG1999PLC030997

#### UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022 (Rs. in Lakhs)

SI. No.	Particulars	Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended
NO.		30-Jun-2022	31-Mar-2022	30-Jun-2021
1	Total income from operations (net)	3,639.88	11,224.30	2,483.82
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	728.47	1175.59	247.25
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	728.47	1175.59	247.25
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	699.02	979.57	224.84
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	802.46	1064.93	320.64
6	Equity Share Capital	1963.10	1963.10	1963.10
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		6575.53	
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing operations)			
	Basic - (in Rupees):	3.56	4.49	1.15
-	Diluted - (in Rupees):	3.56	4.49	1.15

a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for the period ended June 30, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Reguirements) Regulations, 2015. The full format of the said Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) at www.bseindia.com and www.nseindia.com and the Company's website at www.ctepl.com. b) Extract from the Standalone unaudited financial results:

Demand Notice

**Date and Amount** 

Place: Hyderabad

Borrower(s) / Co-

orrower(s) / Guarantor(s

Abhinav Bhardwaj

(DIN 06785065)

Director

Date : August 12, 2022

Particulars	Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended
	30-Jun-2022	31-Mar-2022	30-Jun-2021
ncome from operations (net)	1369.84	4647.88	1127.23
Profit/(Loss) before tax	321.69	375.62	144.98
Profit/(Loss) after tax	292.12	205.83	129.94
Total comprehensive income for the period	263.29	220.34	126.01

for Cambridge Technology Enterprises Limited Dharani Raghurama Swaroop Whole-Time Director

Date of Physical

Possession

(DIN: 00453250)

Public Notice For E-Auction Cum Sale (Appendix - IV A) (Rule 8(6)) orporate Office at Plot No.98,Udyog Vihar, Phase-IV,Gurgaon-122015.(Haryana) and Branch Office at:- Plot No. 30/30E, Upper Ground Floo Main Shivaji Marg, Najafgarh Road, Beside Jaguar Showroom, Moti Nagar, New Delhi/ Office No 1, First Floor, Mahaluxmi Metro Town Plot No. C -1,Sector - 4, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201010 under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets a nforcement of Security Ínterest Act, 2002(hereinafter "Act"). Whereas the Auhorized Officer ("AO") of IIFL-HFL had taken the possession of th ollowing property/ies pursuant to the notice issued U/S 13(2) of the Act in the following loan accounts/prospect nos. with a right to sell the sam on "AS IS WHERE IS BASIS & AS IS WHAT IS BASIS" for realization of IIFL-HFL's dues, The Sale will be done by the undersigned through uction platform provided at the website: www.bankeauctions.com

Description of the Immovable

property/ Secured Asset

20-Jun-2022 14-Jan-2021 Rs.45.03.680/-(Rupees Fo 1.Mr. Ashok Mishri All that part and parcel of the proper Rs.25,75,340/- (Rupees Twenty Five Lakh Three Thousan **Total Outstanding As** Mrs. Jagmali bearing Plot No.-42, Kh. No.-522 Five Lakh Seventy Five Thousa On Date 04-Aug-2022 Six Hundred Eighty Only 3. Mrs. Poonam Mishri Three Hundred Forty Only) measuring 305 sq. yds, Ward No. Rs. 34.93.031/-(Rupees Earnest Money Deposit (EMI 0502, Shanu Vihar, Vill. Hadbast, Loni, Bid Increase Amount Thirty Four Lakh Ninety Rs.4.50.368/-(Rupees For (Prospect No 877244) Ghaziabad, 201102, Uttar Pradesh Rs.30.000/-(Rupees Thirty Three Thousand and Thirty One Only) Thousand Only) Hundred Sixty Eight Only All that part and parcel of the property Symbolic Possession Rs.17.14.500/-(Rupees 02-Mar-2022 1.Mr. Chhitar Pal Rs.23,27,837/- (Rupees 01-Jun-2022 bearing Flat No FF-2 LHS, on First Twenty Three Lakh Twent Thousand Five Hundred On Floor, on Plot No D-70, out of Khasra Seven Thousand Eight Total Outstanding As 2.Mrs. Manorama On Date 08- Aug - 2022 Earnest Money Deposit (EMD No.208 &210/2, area measuring 51.09 Hundred Thirty Seven Only Rs.1,71,450/-(Rupees sq. Mtrs., SLF Ved Vihar, situated at Rs 24 75 348/-(Rupees Bid Increase Amount Twenty Four Lakh Seventy Sadullabad, Ghaziabad, Pincode: Rs.25,000/-(Rupees Twenty Five Thousand Three Thousand Four Hundre IL10036638) 201012. Uttar Pradesh Hundred Forty Eight Only) Date/ Time of E-Auction Date of Inspection of property **EMD Last Date** 24-Aug-2022 1100 hrs -1400 hrs 26-Aug-2022 till 5 pm. 29-Aug-2022 1100 hrs-1300 hrs. Physical Possession Rs.14,96,700/-(Rupees Fourte 07-May-2021 1.Mr. Raiesh All that part and parcel of the property Rs.16,47,388/- (Rupees Sixteen Lakh Forty Seven Lakh Ninety Six Thousand Shrivastava bearing Plot No. D-40, Flat No. SF-1 21-Jun-2022 Seven Hundred Only) (MIG), admeasuring 50 sq. yds. i.e., Total Outstanding As Earnest Money Deposit (EM On Date 10-Aug-2022 Eighty Eight Only) 41.80 sq. mtrs., Second Floor, RHS Rs. 25,26,391/-(Rupees Prem Vihar Phase-2, Khasra No. 1274 Bid Increase Amount (Prospect No 919093 (Rupees One Lakh Fort Nine Thousand Six Loni, Ghaziabad, 201102, Uttar 821530) Rs.25,000/-(Rupees Twenty Six Thousand Three Pradesh, India. Five Thousand Only) Hundred Ninety One Only) Hundred Seventy Only Date/ Time of E-Auction EMD Last Date Date of Inspection of property 24-Aug-2022 1100 hrs -1400 hrs 26-Aug-2022 till 5 pm 30-Aug-2022 1100 hrs-1300 hrs **viode of Payment:-** All payment shall be made by demand draft in favour of **"IIFL Home Finance Limited"** payable at Gurugram or thro The accounts details are as follows: a) Name of the account:- IIFL Home Finance Ltd., b) Name of the Bank:- Standard Charter

TERMS AND CONDITIONS: For participating in e-auction, Intending bidders required to register their details with the Service Provider https://www.bankeauctions.com, well advance and has to create the login account, login ID and password. Intending bidders have to submit / send their "Tender FORM" along with the payment details towards EMD, copy of the KYC and PAN card at the above mentioned Branch Office. The bidders shall improve their offer in multiple of amount mentioned under the column "Bid Increase Amount". In case bid is placed in the la 5 minutes of the closing time of the auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes.

The successful bidder should deposit 25% of the bid amount (after adjusting EMD) within 24 hours of the acceptance of bid price by the AO and the balance 75%

Bank Ltd., c) Account No:-53105066294, d) IFSC Code:-SCBL0036025 or through Payment Link: https://quickpay.iiflfinance.com

of the bid amount within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured creditor. All deposit and payment shall be in the prescribed mode of paymen The purchaser has to bear the cess, applicable stamp duty, fees, and any other statutory dues or other dues like municipal tax, electricity charge land and all other incidental costs, charges including all taxes and rates outgoings relating to the property.

Bidders are advised to go through the website https://bankeauctions.com and https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction detailed terms and conditions of auction sale & auction application form before submitting their Bids for taking part in the e-auction sale proceeding. For details, help procedure and online training on e-auction prospective bidders may contact the service provider **E-mail ID:- support@bankeauc** tions.com, Support Helpline Numbers:@7291981124/25/26.and any property related query Mr. Jitendra Gupta @ 9372258003, Emai iitendra.gupta1@iifl.com

Notice is hereby given to above said borrowers to collect the household articles, which were lying in the secured asset at the time of taking physic possession within 7 days, otherwise IIFL-HFL shall not be responsible for any loss of property under the circumstances. Further the notice is hereby given to the Borrower/s, that in case they fail to collect the above said articles same shall be sold in accordance with Law In case of default in payment at any stage by the successful bidder / auction purchaser within the above stipulated time, the sale will be cancelle and the amount already paid will be forfeited (including EMD) and the property will be again put to sale.

10. AO reserves the rights to postpone/cancel or vary the terms and condition of tender/auction without assigning any reason thereof. In case of ar dispute in tender/Auction, the decision of AO of IIFL-HFL will be final.

15 DAYS SALE NOTICE UNDER THE RULE 9 SUB RULE (1) OF SARFAESI ACT, 2002 The Borrower are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto dated interest and ancillary expenses before the date of

Tender/Auction, failing which the property will be auctioned/sold and balance dues if any will be recovered with interest and cost.

Place:-New Delhi/Ghaziabad, Date: 13-Aug-2022 Sd/- Authorised Officer, IJFL Home Finance Limite RATNABHUMI DEVELOPERS LIMITED

# CIN: L45200GJ2006PLC048776

Regd. Office: S.F. 207, Turquoise, Panchvati Panch Rasta, Nr. White House E.B., C.G. Road, Ahmedabad-380009,

Gujarat, India • Tel No: (079) 40056129 • Email: cs@ratnagroup.co.in • Website: www.ratnagroup.co.in; **EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR** 

THE QUARTER ENDED 30TH JUNE. 2022

(Rupees in Lakhs except EPS) Quarter ended Quarter ended Quarter ended Year Ended

Sr. No.	Particulars	30-06-2022 (Unaudited)	31-03-2022 (Audited)	30-06-2021 (Unaudited)	31-03-2022 (Audited)
1	Total Income from Operations	4.60	4.60	2.10	15.90
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(14.83)	(12.87)	(6.11)	(29.90)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(14.83)	(12.87)	(6.11)	(29.90)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(14.77)	(10.68)	(6.11)	(26.07)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Equity Share Capital	1370.00	1370.00	1370.00	1370.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	_	d)	-	2107.32
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) – 1. Basic: 2. Diluted:	(0.04) (0.04)	(0.43) (0.43)	0.11 0.11	0.12 0.12
Note					- 1

Sr.

- a) The above is an extract of the detailed format of QuarterlyConsolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Standalone and Consolidated Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange at www.bseindia.comand the company at www.ratnagroup.co.in.
- b) The Turnover for the Quarter ended 30th June, 2022 is 13.62, Profit before tax is (5.81) and Profit after Tax is (5.75) on standalone basis. (The amounts are mentioned in lakhs)

Mr. Kaivan Shah

For, Ratnabhumi Developers Limited

**Chairman and Managing Director** 

Place: Ahmedabad Date: 12-08-2022

New Delhi

DIN: 01887130

c.in

financialemp.epar

Place: Kolkata Date: 11th August 2022

नियम 8(1) अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पत्ति हेत्) जबकि अवोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के तहत बैंक ऑफ इंडिया का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित घारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नुलिखित कर्जुदारों को निम्नुलिखित दिनांक को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें मांग नोटिस में लिखित बकाया राशि उक्त नोटिस

की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था। उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है वि अधोहस्ताक्षरी ने सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की घारा 13 की उप–धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्तियों का कब्जा निम्नांकित दिनांकों को ले लिया है।

उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नवर्णित सम्पत्तियों के साथ लेन–देन न करें तथ सम्पत्तियों के साथ कोई भी लेन-देन **बैंक ऑफ इंडिया**, के प्रभार वास्ते उल्लेखित बकाया राशि के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त कराने हेत् उपलब्ध समय सीमा की म्पत्तियों का विवरण

ओर	आकर्षित किया जाता है।	अचल स
क्र. सं.	खाते का नाम (कर्जदार)	माँग सूचना की तारीख कब्जा सूचना की तारीख बकाया राशि (रू. में)
8 <b>1</b>	मैसर्स मुंद्रा गारमेंट्स मालिक श्रीमती इंदु देवी मुंद्रा	18.02.2022 10-08-2022 रु. 50,46,309.78 और भविष्य का ब्याज

वैंक ऑफ इंडिया BOI

अचल सम्पत्तियो का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जिसमें दुकान: **X-2334,** गर्ल नंबर-11, रघुबरपुरा नंबर-2 गांधी नगर शामिल है ग्राम सीलमपुर इल्लाका शाहदरा के क्षेत्र में दिल्ली—110031 **यह सम्पत्ति कर्जदार** श्रीमती इंद् देवी मुंद्रा पत्नी दिनेश कुमार मुंद्रा **के नाम पर** उपजिला उप पंजीयक VIII, दिल्ली / नई दिल्ली में पंजीकरण है। चीहदी: उत्तर में -संपत्ति का हिस्सा, दक्षिण में – अन्य संपत्ति, पुरब में – अन्य संपत्ति, पश्चिम

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जिसमें फ्लैट नं सी/1003, 10वी मंजिल, एक्सप्रेस ग्रीन सोंसाइटी, सेक्टर—1, वैशाली, गाजियाबाद—201019 (युपी) शामिल हैं। यह सम्पत्ति कर्जदार श्रीमती इंद देवी मुंद्रा पत्नी दिनेश कुमार मुंद्रा और गारंटर श्री दिनेश कुमार मुंद्रा पुत्र श्री प्रयाग चंद मुंद्रा **के** नाम पर. उपजिला उप पंजीयक IV. गाजियाबाद-201019 (यूपी) में चौहदी : उत्तर में – निजी संपत्ति, दक्षिण में – निजी संपत्ति / पीएसी भूमि

पुरब में — ग्रीन बेल्ट / 24 मीटर चौडी सडक, पश्चिम में —अन्य की संपत्ति

दिनांक : 10-08-2022, स्थान : नई दिल्ली

No.

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

NORTH EASTERN CARRYING CORPORATION LIMITED

(CIN: L51909DL1984PLC019485) Regd. Office: 9062/47, Ram Bagh Road, Azad Market, Delhi- 110006 Tel. No.: 011-23517516-19, Email Id-cs@neccgroup.com, Website- www.neccgroup.com Statement of un-audited Financial Results for the Quarter ended 30.06.2022

(Rs.in Lakhs) **Particulars** 3 months ended **Previous Year** Corresponding 3 (30/06/2022) ended months ended in (31/03/2022) the previous year (30/06/2021) (un-audited) (audited) (un-audited)

		Court of section and and and a	( terrespectures and )	( see a see see see a see see )
1	Total Income from Operations	8209.30	25042.77	7041.33
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	151.68	568.64	95.90
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	151.68	568.64	95.90
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	96.02	425.75	71.90
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	95.24	421.57	71.90
6	Equity Share Capital (face value Rs 10/- per share)	5019.73	5019.73	5019.73
7	Reserve excluding Revaluation Reserve as per Balance Sheet of previous year		4873.88	;
8	Earnings Per Share (of Rs 10/-each) (for continuing and discontinued operations)	11 MONTH OF THE T	0100000	2011100
	a) Basic	0.19	0.85	0.14
	b) Diluted	0.19	0.85	0.14

Notes: The above is an extract of the detailed format of un-audited Financial Results filed with the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

2. The Results are available on the website of the Company at www.neccgroup.com and website of Stock exchanges i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com

The figures of the March 22 quarter are balancing figures between the audited figures in respect of full financial year and unaudited figures published year to date upto the third quarter of the relevant financial year which

4. The above un-audited financial results for the guarter ended June 30, 2022 were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at their Meeting held on August 12, 2022. The figures of previous financial year were regrouped/rearranged where ever necessary.

For North Eastern Carrying Corporation Limited

Place: Delhi

Date: 12.08.2022

(Sunil Kumar Jain) Chairman & Managing Director DIN: 00010695

# बिजली संशोधन बिल के विरोध में एसकेएम करेगा 17 अगस्त को प्रदर्शन

देश

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 12 अगस्त।

बिजली संशोधन बिल 2022 के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) 17 अगस्त को प्रदर्शन करेगा। 11 अगस्त को एसकेएम की आनलाइन बैठक में चर्चा कर के देश भर के 60 से अधिक किसान संगठनों ने यह निर्णय लिया।

एसकेएम के अनुसार कर्नाटक में 13 अगस्त को, वहीं देश के अन्य राज्यों में 17 अगस्त को इस बिल के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। इसके तहत जिला व

तहसील स्तर पर

केंद्र सरकार का

पुतला दहन किया

जाएगा। एसकेएम

प्रवक्ता अभिमन्यू

कोहार का कहना है।

प्रपत्र स. आइएनसा-26 कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में] क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) बी-2 विंग. 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 कंपनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13(4) तथा कंपनी (निगमन)

टर्मा (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालयः 610, छठा तल, होटल मैरीडिअन का कॉमर्शियल टावर, विण्डसर प्लेस, नई दिल्ली-110001, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में है, के

मामले में

नियमावली, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले

एतदुद्वारा आम जनता को सुचित किया जाता है कि 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से ''कर्नाटक राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 12 अगस्त, 2022 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पृष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार, शक्ति क्षेत्रीय निदेशक में समाहित, के पास आवेदन करने का

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित जीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सचना के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथ आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र के पतेः बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन. सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें पंजीकृत कार्यालयः 610. छठा तल. होटल मैरीडिअन का कॉमर्शियल टावर, विण्डसर प्लेस,

नई दिल्ली-110001 कृते एवं के लिये. टर्मा (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड

मोहम्मद आसिफ मकानदा पूर्णकालिक निदेशक स्थानः नई दिल्ली DIN: 07715115

तिथि: 13 अगस्त, 2022

कि 11 दिसंबर को जब संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन स्थगित किया था, तो उस समय केंद्र सरकार ने वादा किया था कि बिजली बिल लाने से पहले एसकेएम के साथ चर्चा की जाएगी, लेकिन इस बारे में चर्चा किए बगैर आठ अगस्त को बिजली संशोधन बिल 2022 संसद में पेश किया गया।

यह देश के किसानों के साथ विश्वासघात है। इस बिल के माध्यम से केंद्र सरकार बिजली क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपना चाहती है, जिससे भविष्य में किसान हितों को नुकसान पहुंचेगा। उल्लेखनीय है कि संसद में बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 पेश किए जाने के तुरंत बाद पंजाब में किसान संघों द्वारा विरोध शुरू हो गया था। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के रोष मार्च निकालकर समन्वय समिति के सदस्य डा दर्शन पाल ने कहा कि हमें इस बिल का विरोध करना चाहिए जैसा कि हमने उन काले कानूनों (कृषि कानूनों) के खिलाफ किया था। हर गांव और मोहल्ले को बिल की प्रतियां जलाकर विरोध करना चाहिए।

गुजरात : कांग्रेस विधायक के दामाद के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मामला दर्ज

13 अगस्त, 2022 **2 1** 

आणंद (गुजरात), १२ अगस्त (भाषा)।

जनसता

पुलिस ने कांग्रेस विधायक के दामाद के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि विधायक के दामाद के स्पोर्ट्स युटिलिटी व्हीकल (एसयुवी) ने एक आटोरिक्शा व एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना गुरुवार की शाम आणंद कस्बे को तारापुर से जोड़ने वाली सड़क पर स्थित सोजित्रा गांव के पास हुई। उन्होंने बताया कि हादसे में तीन महिलाओं सहित छह लोग मारे गए।

सोजित्रा थाने के पुलिस उपनिरीक्षक एपी परमार ने बताया कि आरोपी की पहचान सोजित्रा सीट से कांग्रेस विधायक पनमभाई परमार के दामाद केतन पिधयार के रूप में हुई है। दुर्घटना में केतन पिधयार को भी चोट लगी थी और उसका आणंद के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि पिधयार हिरासत में है और अस्पताल से छुट्टी मिलते ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। उनके खून का नमूना जांच के लिए भेजा गया है।

> 'तिरंगा नहीं लगाने वाले मकानों की तस्वीर की मांग कार्यकर्ताओं के लिए'

देहरादुन, 12 अगस्त (भाषा)।

भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड इकाई के नवनियुक्त अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराने वाले मकानों की तस्वीरों की उनकी मांग आम जनता के लिए नहीं, बल्कि केवल पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए है। ऐसी मांग कर विपक्षी दलों के निशाने पर आए भट्ट ने कहा कि देश के लिए सच्ची भावना रखने वाला कोई भी व्यक्ति आजादी के 75 साल का जश्न मनाने के लिए अपने घर पर तिरंगा फहराने से नहीं हिचकेगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी केवल पार्टी कार्यकर्ताओं के संदर्भ में थी। मेरा यह दुढ विश्वास है कि जो भी व्यक्ति इस देश के लिए महसस करता है. अपने घर पर तिरंगा लगाने से नहीं हिचकेगा।

उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि तिरंगे के सम्मान के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी फांसी के फंदे पर चढ़ गए। भट्ट ने कहा कि देश उन पर विश्वास नहीं करेगा, जो इस मौके पर अपने घरों पर तिरंगा नहीं फहराएंगे।

#### A F ENTERPRISES LIMITED CIN: L18100DL1983PLC016354

REGD. OFF: DSM-334, DLF TOWER, SHIVAJI MAROG, NAJAFGARH ROAD, MOTI NAGAR, NEW DELHI-110015 CORP OFF: PLOT NO. 8, SECTOR-5, MAIN MATHURA ROAD, FARIDABAD, HARYANA-121006 🖾 Email Id: info.afenterprises@gmail.com | 🜐 Website: www.afenterprisesItd.in

	(Amount in Lakhs.)										
Sr.	Particulars		Standalone		Consolidated						
No.		30.06.2022	30.06.2021	31.03.2022	30.06.2022	30.06.2021	31.03.2022				
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)				
1.	Total Income from Operations	594.36	264.45	2,632.87	594.37	264.55	5,100.56				
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	161.07	21.85	157.68	128.62	4.58	165.27				
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	291.82	21.85	157.68	259.37	4.58	165.27				
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	217.96	16.35	103.60	185.50	3.42	111.67				
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	217.96	16.35	104.15	185.50	3.42	112.22				
6.	Paid Up Equity Share Capital (Face Value of ₹10/-) each	1,291.36	951.36	1,291.36	1,291.36	951.36	1,291.36				
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	553.42	123.27	123.27	561.23	124.27	124.27				
8.	Earnings Per Share (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations) -										
1	1. Basic:	1.69	0.17	0.96	1.44	0.04	1.04				
	2. Diluted:	1.69	0.17	0.87	1.44	0.04	0.93				

Notes: 1) The above is an extract of the detailed format of Quaterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI(Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quaterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange and the listed entity www.afenterprisesItd.in

The above result have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 12.08.2022 and subject to limited review by the statutory auditor as indicated above

For AF ENTERPRISES LIMITED

Santosh Kumar Kushawaha

# हिसार मेटल इंड्स्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः निवर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉलोनी, दिल्ली रोड, हिसार-125005 (हरिवाणा) ईमेलः info@hisarmetal.com; वेक्साइटः www.hisarmetal.com फोन: (01662) 220067, 220367, 220738 फौक्स: (01662) 220265 CIN: L74899HR1990PLC030937

30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम

			(क. ल	खों में निर्दिष्ट	को छोडकर)
	विवरण	समाप्त तिमाही 30.06.2022	समाप्त विमाही 31.03.2022	समाप्त विमाही 30.08.2021	समाप्त वर्ष 31.03.2022
		(अनं के क्षित)	(अं के सित)	(अनं के क्षित)	(अं के सित)
1	प्रचालन से कुल आय (अन्य आय सहित)	8235	6680	4688	23845
2	अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (कर, अपवादात्मक और/व असाधारण मदों से पूर्व)	527	628	229	1622
š	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (अपवादात्मक और/व असाधारण मदों के बाद)	527	628	229	1622
	कर के बाद अविधा के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/व असाधारण मर्दो के बाद)	394	462	172	1206
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाम/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल]	394	462	172	1206
3	इविवटी शेयर पूंजी	540	540	540	540
7	अन्य इक्विटी (पुनर्मुल्यांकन रिजर्व्स को छोडकर) जैसा कि पिछले वर्ष की अकेक्षित बैलेंस शीट में दिखाया गया है				3844
3	प्रति शेयर आय (रू. 10/— प्रत्येक) (वालू और बंद प्रचालनों के लिए) बेसिक एवं डायल्यूटिड	7.30	8.56	3.19	22.33

सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंज के साथ दर्ज की गई ऊपरोक्त त्रैमासिक वितीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप का उद्धरण है। वितीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट (www.bseindia.com व www.nseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.hisarmetal.com) पर उपलब्ध है।

> कृते और निदेशक मंडल की ओर से हस्ता/-(अमिराम तायस)

स्थानः हिसार (हरियाणा) विधि : 12 अगस्त, 2022

प्रबंध निदेशक DIN 00081453

# साउर्थन इंफोसिस लिमिटेड

पंजि0 कार्यालयः ४०२-ए. अरुणांचल बिल्डिंग, 19.बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 फोनः 011-43045402, ईमेलः southerninfosys@gmail.com, वेबसाइटः www.southerninfosys.com

CIN: L67120DL1994PLC059994 30 जून 2022 को समाप्त प्रथम तिमाही के लिए स्टैण्डअलोन एवं समेकित अनंकेक्षित वितिय परिणाम

1			W 1	(र लाख में)			15	(र लाख में)
विवरण		स्टैंग	ग्डअलोन				समेकित	
	तिमाही समाप्त 30.06.22 (अनंकेक्षित)	तिमाही समाप्त 31.03.22 (अंकेक्षित)	तिमाही समाप्त 30.06.21 (अनंकेक्षित)	वर्ष के लिए तिथि 31.03.22 (अंकेंक्षित)	तिमाही समाप्त 30.06.22 (अनंकेंद्रित)	तिमाही समाप्त 31.03.22 (अंकेंद्रित)	तिमाही समाप्त 30.06.21 (अनंकेंद्वित)	वर्ष के लिए तिथि 31.03.22 (अंकेंद्रीत)
परिधालन से कुल आय (शुद्ध)	23.19	241.50	558.71	1488.23	23.19	241.50	558.71	1488.23
अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि), (कर, विशिष्ट और/या असाधारण मदों से पूर्व)	3.66	1.86	1.14	9.58	3.66	1.86	1.14	9.58
अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि), (कर, विशिष्ट और / या असाधारण मदों के पश्चात)	2.44	0.65	0.86	6.41	2.44	0.65	0.86	6.41
अवधि हेतु कुल व्यापक आय (कर के बाद अवधि हेतु लाम/हानि और कर के बाद अन्य व्यापक आय)	2.44	0.65	0.86	6.41	3.48	0.00	0.18	7.50
इविवटी शेयर पूंजी	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502	502.00	502.00
आरक्षित (पुनर्मुल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) जैसा कि बैलेंस शीट में दिखाया गया है	*			•	S. •-S	(-W)	-	₩5
आय प्रति शेयर (रु 10/- प्रति) या जारी और बंद किए गए संचालन	101.000-11-	2000	Character				1200000	er 6 ganter
मूलः	0.05	0.01	0.01	0.13	0.07	0.00	0.00	0.13
तरलः	0.05	0.01	0.01	0.13	0.07	0.00	0.00	0.13

1. ऑंडिट कमेटी द्वारा अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा की गई और उसके बाद निदेशक मंडल द्वारा 12 अगस्त, 2022 को आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित किया गया।

वैधानिक लेखा परीक्षकों ने 30.06.2022 को समाप्त प्रथम तिमाही के लिए उपरोक्त वित्तीय परिणाम की सांविधिक लेखापरीक्षा की है।

कपर दिए गए स्टैंडअलोन के विस्तत प्रारूप का एक उद्धरण है और सेबी के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दायर 30.06.2022 को समाप्त तिमाही के लिए समेकित अघोषित वित्तीय परिणाम (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण की आवश्यकताए): विनियमन '2015। वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट (www.bse.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.southeminfosys.com)

. उपरोक्त परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अधिसुचित भारतीय लेखा मानकों (इंडस्ट्रीज) के अनुपालन में हैं । साउर्थन इंफोसिस लिमिटेड के लिए

हस्ता/-

सिद्धार्थ शर्मा निदेशक DIN: 07401382

तिथि: 11.08.2022

# ETT LIMITED

CIN: L22122DL1993PLC123728

Date: 12th August, 2022

Place: Faridabad

Regd. Office: 17, Hemkunt Colony, New Delhi - 110 048 T & F: +91 11 4656 7575 | Website: www.ettgroup.in E-mail: secretarial@ettgroup.in

	(Rs. In Lakhs except earnings per si										
SI No.	Particulars	Quarter Ended 30/06/2022 (Unaudited)	Quarter Ended 31/03/2022 (Audited)	Quarter Ended 30/06/2021 (Unaudited)	Year Ended 31/03/2022 (Audited)						
1	Total income from operations	70.53	73.72	75.35	302.95						
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	(30.50)	(24.10)	(0.77)	(21.67)						
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	799.03	(24.10)	(0.77)	(21.67)						
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	697.39	(18.25)	(0.62)	(16.94)						
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit' (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	697.39	(17.47)	(0.62)	(16.16)						
6	Equity Share Capital (face value of ₹ 10/- each)	1036.87	1036.87	1036.87	1036.87						
7	Other equity as shown in the Audited Balance Sheet	1030.01	1030.07	1030.01	2,248.42						
8	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each)				2,240.42						
VOK	a) Basic	6.73	(0.18)	(0.01)	(0.16)						
	b) Diluted	6.73	(0.18)	(0.01)	(0.16)						

Note: The above is an extract of the detailed format of the financial results for the quarter ended on June 30th 2022, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above financial results are available on the Stock Exchange website at www.bseindia.com and also available on the Company's website at www.ettgroup.in.

For ETT Limited

Date: 12.08.2022 Place: Delhi

**Gurupreet Sangla** (Jt. Managing Director) **DIN**: 00036988

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड & Chola कॉर्पोरेट कार्यालय : प्रथम तल, डेयर हाउस, नं. 2, एन.एस.सी. बोस रोड, चेन्नई-600 001. **शाखा का पता**: एससीओ नंबर 218-219 / पहली मंजिल, आईसीआईसीआई बैंक, सेक्टर 34-ए, चंडीगढ़ -160022 शाखा पताः एससीओ-105, सेक्टर-17, प्रथम तल, पेट्रोल पंप के पास, कोर्ट रोड, जगाधरी, यमुनानगर-135001

**Managing Director** 

DIN-: 02994228

कब्जा सुचना नियम - 8(1) के तहत

जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत मैसर्स चोलामण्डलम का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे कॉलम (बी) में सुचित नाम वाले कर्जदारों से नीचे कॉलम (डी) में सुचित बकाया राशि तथा उस पर ब्याज का कथित सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भगतान करने को कहते हुए कॉलम (सी) में निर्दिष्ट तिथियों पर मांग सुचनाएं

कर्जदारों द्वारा राशि का पुनर्भगतान करने में असफल होने के कारण, एतद्वारा विशेष रूप से कर्जदारों को तथा जनसामान्य को सुचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने नियमों के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) तथा उसके तहत निर्मित नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में यहां नीचे कॉलम (ई) में वर्णित कम्पनी के पास बंधक सम्पत्तियों पर कॉलम (एफ) में वर्णित सम्बन्धित तिथियों पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदारों को तथा जनसामान्य को एतद्वारा नीचे कॉलम (ई) में वर्णित सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और ऐसा कोई संव्यवहार कॉलम (डी) में वर्णित राशि एवं ब्याज सहित अन्य प्रभारों के लिए मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड के प्रभार के अध्यधीन होगा।

प्रतिभृतिकरण अधिनियम की धारा 13(8) के तहत कर्जदार बिक्री की अधिसचना से पूर्व समस्त लागतों, प्रभारों एवं व्ययों सहित सम्पूर्ण बकायों का भुगतान करके प्रतिभूत आस्ति विमोचित कर सकते हैं।

क्र सं.	कर्जदार का नाम तथा पता और ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जाकृत सम्पत्ति का विवरण	कब्जे की तिथि
A	В	С	D	E	F
1.	ऋण खाता सं. X0HEYAM00000746502, X0HEYAM00000901084 कर्जदार तथा सह-कर्जदार : 1. अमरिन्दर सिंह चीमा 2. कमल प्रीत कौर (सभी निवासी) मकान नं. 498, वार्ड नं. 27, कैम्प, यमुना नगर-135002 3. अमरिन्दर रोड कैरियर (सभी व्यवसाय का पता) रादौर रोड, सामने एचवीपीएन जादियान, यमुना नगर-135001	7/06/2021	रु. 22,25,050.78/- तिथि 05–06- 2021 तक तथा उस पर भावी ब्याज	सं. 2008 दिनांक 18.07.2008 के अनुसार पंजीकृत रिपयुजी कैम्प, बैरक नं. 27, तहसील जगाधरी जिल	ī
2.	ऋण खाता सं. : X0HEYAM00001336543 कर्जदार तथा सह-कर्जदार : 1. मंजीत राणा 2. रेखा रानी 3. सभी निवासी) मकान नं. 9/1763, वार्ड नं. 20, कृष्णा नगर, यमुना नगर-135002	07/06/2021	रु. 34,19,959.40/- तिथि 05 -06- 2021 तथा उस पर भावी ब्याज	3,	T T

1. कल आय

(विशिष्ट मदों से पूर्व)

(विशिष्ट मदों के बाद)

(विशिष्ट मदों के बाद)

(कर के बाद से शामिल)

6. इक्विटी शेयर पंजी

क) मलः

ख) तरलः

स्थानः कोलकाता

तिथिः 12 अगस्त, 2022

टिप्पणी:

प्रबंध निदेशक

2. कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)

3. कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)

4. कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)

5. अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय

7. आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मृल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)

8. आय प्रति शेयर ( रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं)

# स्टील स्ट्रिप्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

CIN: L27109PB1973PLC003232

पंजी कार्यालयः गांव-सोमलहेडी/लेहली, डाकखाना दप्पर, तहसील डेराबस्सी, एसएएस नगर, मोहाली (पं.) वेबसाइटः www.ssilindia.net, इमेल आइडीः ssl\_ssg@glide.net.in

दिनांक 30.06.2022 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैंडएलॉन और कंसोलिडेटिड अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार

귦.	विश्वरण	स्टैडएलॉन समाप्त तिमाही			कंसोलिडेटिड समाप्त तिमाही			स्टैडएलॉन समाप्त वर्ष	कंसोलिडेटिड समाप्त वर्ष
सं.									
		30.06.22	31.03.22	30.06.21	30.06.22	31.03.22	30.06.21	31.03.22	31.03.22
	l s	( अनंकेक्षित )	( अकेक्षित )	( अनेकेक्षित )	( अनेकेक्षित )	( अकेक्षित )	( अनेकेक्षित )	( अकेक्षित )	( अंकेक्षित )
1.	प्रचालनों से कुल आय	27.97	28.65	27.05	27.97	28.65	27.05	129.37	129.37
2.	अवधि के लिए मुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशेष या असाधारण मदों से पूर्व)	(35.83)	(40.77)	(36.85)	(35.83)	(40.77)	(36.85)	(154.16)	(154,16)
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशेष वा असाधारण मदों के बाद)	(35.83)	(40.77)	(36.85)	134.24	(613.34)	578.23	(154.16)	3066.98
4.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशेष या असाधारण मदों के बाद)	(35.83)	(40,77)	(36.85)	134.24	(613.34)	578.23	(154.16)	3066.98
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए (कर के बाद) लाध/ (हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) को शामिल करके]	(45.12)	(217.921	B8.63	124.95	(790.49)	703.71	(103.20)	3117.94
6.	भुगतान इंक्विटी शेयर पूंजी (शेयर का अंकित मृल्य 10/- र. प्रति) लेखाकन वर्ष	864.30	864.30	864,30	864.30	864.30	864.30	864.30	864.30
7.	आय प्रति शेयर (रु. 16/- प्रति का) (नारी तथा चंद प्रचालनों के लिए) (चार्षिक नहीं)								
	मूल च तनुकृत	(0.41)	(0.47)	(0.43)	1.55	17.101	6.69	(1.78)	35.49

दाखिल किए गए वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। वित्तीय परिणामों का संपर्ण विवरण शेयर बाजार की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कम्पनी की येबसाईटः www.ssilindia.net पर भी उपलब्ध है। स्थानः चंडीगढ हस्ता./- संजय गर्ग

वित्तीय परिणाम तथा इस सारांश की ऑडिट किमटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 12 अगस्त, 2022 को आयोजि उनकी संबंधित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किये गये। अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप कम्पनी की वेबसाइट (http://www.globalbol.com) तथा बीएसई लि. की वेबसाईट (www.bsein dia.com) पर उपलब्ध है। निदेशक मंडल के लिये तथा उनकी ओर

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 व

अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का संपर्ण प्रारूप का सार है। विस्त

भगवती ऑक्सीजन लिमिटेड

(CIN No. L74899HR1972PLC006203) पंजी. कार्यालय: प्लॉट 5, सेक्टर 25, बल्लभगढ़, हरियाणा-121004

30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण का सार

तिमाही

30.6.2022

( अनंकेक्षित )

25.4

(74.05)

(74.05)

(69.11

231.30

(2.99

(2.99)

एस के शम (DIN: 00041150

मैसस चोलामण्डलम इन्दोस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेश

(ईपीएस छोडकर रु. लाखों

टार्घ

31.3.2022

(अंकेक्षित)

(300.27)

(300.27)

(281.88)

231.30

434.48

(12.19)

(12.19)

167.36

समाप्त

तिमाही

30.6.2021

( अनंकेक्षित

27.40

(67.28)

(67.28)

(62.68)

(62.68)

231.30

(2.71)

(2.71)

तिमाही

31.3.2022

(अंकेक्षित)

36.62

(96.27)

(96.27)

(91.68)

(95.57)

231.30

(3.96)

(3.96)

www.readwhere.com

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 12.08.2022